

**विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय**

**वर्ग - दशम**

**विषय - हिंदी**

**॥अध्ययन - सामग्री ॥**

**निर्देश - दी गई सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें**

**समझो अपनी कॉपी में लिख कर रखें ।**

मिश्र वाक्य के उदाहरण

वह कौन-सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं यहां एक उपवाक्य नहीं दो दो उपवाक्य हैं। इनमें से एक उपवाक्य प्रधान है एवं दूसरा उपवाक्य आश्रित है।

ऊपर दिए वाक्य में 'वह कोनसा मनुष्य है' यह उपवाक्य प्रधान है व 'जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो' यह वाक्य आश्रित वाक्य है। जैसा की हम देख सकते हैं इस वाक्य में दो विधेय हैं एवं दो विधेय मिश्र वाक्य में होते हैं। अतएव यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा।

अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं की इसमें दो उद्देश्य हैं एवं दो उपवाक्य है। इन दो उपवाक्यों में 'अमित ने वह घर खरीदा' यह प्रधान वाक्य है एवं 'जो उसके चाचा का था' यह वाक्य आश्रित वाक्य है।

जैसा की हम जानते हैं कि जब वाक्य में दो उद्देश्य होते हैं एवं दो उपवाक्य होते हैं तो वह मिश्र होता है। अतः यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा।

यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था।

ऊपर दिए गये उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं की इसमें दो उपवाक्य हैं। इसमें 'यह वही भारत देश है' यह उपवाक्य प्रधान है एवं 'जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था' यह आश्रित उपवाक्य है।

जैसा की हम जानते हैं कि जब दो उपवाक्य हो जाते हैं एवं एक या एक से अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं, तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। अतः यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा।

मिश्र वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण

जो औरत वहां बैठी हैं वो मेरी माँ है।

जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है।

यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।

मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते।